



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1932 (श10)  
(सं0 पटना 584) पटना, सोमवार, 16 अगस्त 2010

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2010

सं0 11/वि.-1-विविध-17/2007सा.-3261—राज्य महादलित आयोग के निम्नांकित अध्यक्ष एवं सदस्यों का तीन वर्षों का कार्यकाल दिनांक 25 सितम्बर 2010 को समाप्त हो रहा है :-

श्री विश्वनाथ ऋषि	—	अध्यक्ष
श्री बबन रावत	—	सदस्य
श्री राजेन्द्र प्रसाद नट	—	सदस्य
श्री छोटे लाल राजवंशी	—	सदस्य

राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना के गठन संबंधी संकल्प संख्या 2950, दिनांक 30 अगस्त 2007 की कंडिका-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संकल्प की कंडिका-3 में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निष्पादन हेतु आयोग के उपरोक्त अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल अगले तीन माह के लिए विस्तारित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सरयुग प्रसाद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 584-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>